

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 06.08.2022

थाना जैतीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 01 करोड 60 लाख रूपये कीमत की 400 ग्राम स्मैक बरामद कर अन्तर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार ।

श्री एस आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे मादक पदार्थों की रोकथाम व मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्री मस्सा सिँह, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निर्देशन मे थाना जैतीपुर पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी ।

दिनांक 05.08.2022 को श्री राजेश बाबू मिश्रा, थानाध्यक्ष के नेतृत्व मे थाना जैतीपुर की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय 20.20 बजे ग्राम नगरिया खुर्द से आगे जनपदीय बार्डर शाहजहाँपुर बदाँयू से अभियुक्त ओमपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 400 ग्राम स्मैक बरामद हुई । इस सम्बन्ध मे थाना जैतीपुर पर मु0अ0स0 402/2022 धारा 8/22 NDPS ACT पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

1. ग्राम नगरिया खुर्द से आगे जनपदीय बार्डर शाहजहाँपुर बदाँयू से, दिनांक 05.08.2022 समय 20.20 बजे

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. ओमपाल सिंह पुत्र स्व0 बादाम सिँह निवासी ग्राम बिनावर थाना बिनावर जिला बदाँयू

बरामदगी का विवरण:-

1. 400 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत 01 करोड 60 लाख रूपये)

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0स0 402 /2022 धारा 8/22 NDPS ACT थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

पूछताछ विवरण:-

पूछताछ मे अभियुक्त ओमपाल सिंह ने बताया कि साहब मैं कभी कभी सस्ते दामो मे पंजाब से खरीदकर स्मैक ले आता हूँ और अपने आस पास के जनपद बरेली ,बदाँयू ,शाहजहाँपुर मे स्मैक ऊंचे दामो मे बेच देता हूँ । आज मैं यहाँ स्मैक बेचने के लिये आया था कि आपने मुझे पकड लिया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. थानाध्यक्ष राजेश बाबू मिश्रा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री हरेन्द्र प्रताप सिँह थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2300 अंकित नेहरा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 2685 प्रवीण शर्मा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 2157 विशाल अष्टवाल थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 1813क ओमप्रकाश थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर